

SYLLABUS FOR COMPUTER BASED RECRUITMENT TEST (CBRT)
FOR THE POST OF ASSISTANT PROFESSORS IN GOVERNMENT COLLEGE
(HINDI)
UNDER
DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION
(Advt No. 09 Year 2021)

- I.** General English including Grammar - **05 marks**
- II.** General Knowledge, Current Affairs and Events of National and International Importance - **10 marks**
- III.** Logical Reasoning and Analytical Ability - **10 marks**
- IV. Core:** - **50 marks**

प्रपत्र 1

हिंदी साहित्य : आदिकाल, भक्तिकाल एवं रीतिकाल
आदिकाल परिवेश एवं प्रवृत्तियां
क- राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिवेश
ख- रासो काव्य : परंपरा एवं प्रवृत्तियां
ग- सिद्ध, नाथ, जैन काव्य - काव्य परंपरा एवं प्रवृत्तियां
घ- आदिकाल की रचनाएं एवं रचनाकार

भक्ति का उद्घव एवं विकास

क- राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिवेश एवं उनका तल्कालीन साहित्य पर प्रभाव
ख- निर्गुण काव्यधारा - संत एवं सूफी काव्य : प्रवृत्तियां
ग- सगुण काव्यधारा : रामभक्ति काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा: प्रवृत्तियां
घ- भक्तिकाल की रचनाएं एवं रचनाकार

रीतिकाल परिवेश एवं प्रवृत्तियां

क- राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिवेश
ख- रीतिबद्ध काव्य, रीतिमुक्त काव्य, रीतिसिद्ध काव्य
ग- रीतिकाल एवं दरबारी संस्कृति
घ- रीतिकाल की रचनाएं एवं रचनाकार

प्रपत्र 2 -

आधुनिक हिंदी साहित्य (1857 से अब तक)

भाग 1

क- आधुनिक काल का राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक परिवेश
ख- नवजागरण
ग- समाज सुधारवादी संस्थाएं
ख- आधुनिक काल में कविता का उद्घव एवं विकास तथा रचनाएं एवं रचनाकार
1- भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नयी कविता, समकालीन कविता

भाग 2

आधुनिक काल में गद्य का उद्घव एवं विकास तथा रचनाएं एवं रचनाकार
1- उपन्यास: उद्घव एवं विकास
2- कहानी: उद्घव एवं विकास
3- नाटक :उद्घव एवं विकास
4- निबंध: उद्घव एवं विकास
5- हिंदी गद्य की अद्यतन विधाएं - आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी, रेखाचित्र, यात्रा साहित्य - विकास क्रम

प्रपत्र 3

भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र

- 1- अ- साहित्य एवं काव्य : अवधारणा
 एवं स्वरूप , काव्य हेतु एवं प्रयोजन
- आ- काव्य के रूप -लक्षण तथा विशेषताएं
 -महाकाव्य खंडकाव्य ,गीति काव्य , मुक्तक
- इ- रस : अवधारणा एवं स्वरूप
- ई- शब्द शक्ति :स्वरूप एवं प्रकार
- उ - नाटक: अवधारणा एवं स्वरूप (भारतीय मान्यताओं के आधार पर)
- 2- भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांतः रस ,अलंकार, ध्वनि ,रीति , वक्रोक्ति, औचित्य सिद्धांत
- 3- पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सिद्धांतःप्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस, कॉलरिज, मैथ्यू अर्नाल्ड , क्रोचे , आई ए रिचर्ड्स, टी एस इलियट आदि विचारकों के सिद्धांत

प्रपत्र 4

हिंदी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि

- अ- वैदिक दर्शन : वेद, उपनिषद - स्वरूप एवं
 तत्व
- आ- बौद्ध, जैन दर्शनः स्वरूप एवं तत्व
- इ - मार्क्सवादः स्वरूप एवं तत्व
- ई- अस्तित्ववादःस्वरूप एवं तत्व
- उ- मनोविश्लेषण सिद्धांतःस्वरूप एवं तत्व
- ऊ- गांधीवादी दर्शनःस्वरूप एवं तत्व

प्रपत्र 5

भाषा विज्ञान

- अ- भाषा : अवधारणा, स्वरूप एवं लक्षण
- आ- भाषा विज्ञान : अवधारणा एवं स्वरूप
- इ- भारत में भाषा चिंतन
- ई- भाषा विज्ञान की पाश्चात्य परंपरा
- उ- भाषा विज्ञान के अंग
- ऊ- भाषा विज्ञान की शाखाएं
- ए- ध्वनि विज्ञान , स्वनिम , रूपिम
- ऐ- वाक्य : अवधारणा , स्वरूप, प्रकार
- ओ- अर्थ संरचना : स्वरूप, अर्थबोध एवं अर्थ निर्णय के साधन ,अर्थ परिवर्तन के कारण एवं दिशाएं

Note:

Duration for C.B.R.T : 90 Minutes

Maximum Marks for C.B.R.T : 75 Marks